

## प्रेस नोट:दिनांक 03.09.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 03.09.2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात श्री अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से सनई तिराहा, साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया तथा चेकिंग के दौरान यातायात नियम का पालन न करने वाले 28 वाहनों से 26500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

### \*प्रेस नोट थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 03.09.2022\*\*\*

#### थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा चोरी के 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में व श्री तहसीलदार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 255/2022 धारा 380/457/411/413 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-.1. समीर पुत्र सलीम निवासी रमजाननगर थाना सिद्धार्थनगर जिला सिद्धार्थनगर

2. सनी पुत्र रामलखन निवासी रमजाननगर थाना सिद्धार्थनगर, जिला सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण- एक अदद वन प्लस सेवन प्रो मोबाइल फोन ,एक अदद आधार कार्ड , 2000/- रुपया नगद, 03 पैकेट बादाम अलमण्ड्स कम्पनी , दो पैकेट काजू रायल crush व 01 पैकेट ग्रीन गोल्ड कम्पनी का किसमिस

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव

उ0नि0 श्री सभाजीत मिश्र

का0 मनोज यादव

का0 धीरेन्द्र यादव थाना सिद्धार्थनगर , जनपद सिद्धार्थनगर।

## प्रेस नोट दिनांक 03-09-2022

### महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 03-09-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 03 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है। 01 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, म०हे०मु० सविता सिंह, महिला आरक्षी नेहा सिंह, महिला आरक्षी अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण

1. मंजू यादव पत्नी रुदल यादव साकिन कपसिंहवा, थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर।

## प्रेस नोट दिनांक 03-09-2022

आज दिनांक 03-09-2022 को सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर एवं श्री जयेन्द्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा तहसील इटवा पर जनता की समस्याओं को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया पूर्व में तहसील दिवस में आई समस्याएँ जिनका निस्तारण नहीं हो सका है उनको भी अविलम्ब निस्तारण करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

दिनांक 02.09.2022 को थाना भवानीगंज पर वादी/शिकायतकर्ता जुबेर अहमद पुत्र मो० अहमद ग्राम कनरघटा थाना भवानीगंज द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 01/02.09.2022 को रात्रि 02:00 बजे आशीष सिंह पुत्र भीष्म पितामह सिंह ग्राम कटरिया नानकार थाना सोनहा जनपद बस्ती उनके घर मे घुसकर उनकी बहू के साछ छेड़खानी करने लगा तब उनकी बहू ने शोर किया तो घर के लोग जग गये, आशीष सिंह को वादी एवं वादी के घर के सदस्य थाना भवानीगंज पर लेकर आये," इस सम्बन्ध में थाना भवानीगंज पर मु०अ०सं०-120/2022 अंतर्गत धारा 354, 452 भा०द०वि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।

विशेष :- उक्त प्रकरण में एक व्यक्ति रात्रि में घर में गया था व शादीशुदा महिला के साथ छेड़खानी करते हुए घरवालों द्वारा पकड़ा गया जिस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई । संज्ञान में यह भी आया है कि उक्त आरोपी के साथ मारपीट भी की गई । जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है ।